

NOKIA

Nokia G21

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वषिय सूची

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में	5
2 शुरू करें	6
अपने फ़ोन को अद्यतित रखें	6
कुंजियाँ और पुरजे	6
SIM और मेमोरी कार्ड डालना	7
अपना फ़ोन चार्ज करें	8
फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें	8
दोहरी SIM सेटिंग	9
अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें	10
टच स्क्रीन का उपयोग करें	10
3 बुनियादी तथ्य	14
अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें	14
नोटिफिकेशन	14
वॉल्यूम नियंत्रित करें	15
स्वचालित लेख सुधार	16
Google Assistant	16
बैटरी लाइफ़	17
एक्सेस योग्यता	18
4 अपने मित्रों और परिवार के साथ कनेक्ट करें	19
कॉल	19
संपर्क	19
संदेश भेजें	20
मेल	20
5 कैमरा	21
कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें	21
वीडियो	21
आपके फ़ोटो और वीडियो	22

6 इंटरनेट और कनेक्शन	23
वाई-फ़ाई सक्रिय करें	23
वेब ब्राउज़ करें	23
Bluetooth®	24
VPN	25
7 अपना दिन व्यवस्थित करें	27
दुनिांक और समय	27
अलार्म घड़ी	27
कैलेंडर	28
8 मानचित्र	29
स्थान ढूँढें और दिशानर्दिश प्राप्त करें	29
9 ऐप, अद्यतन और बैकअप	30
Google Play से ऐप प्राप्त करें	30
अपने फ़ोन का स्थान खाली करें	30
अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें	30
अपने डेटा का बैकअप लें	31
मूल सेटगिंस पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नज्ी सामग्री हटाएं	31
10 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें	32
स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें	32
अपने फ़ोन को अपने फ़गिरप्रटि से सुरक्षित करें	32
अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना	33
अपने SIM का पिन कोड बदलें	33
एक्सेस कोड	34

11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी	36
आपकी सुरक्षा के लिए	36
नेटवर्क सेवाएं और लागतें	39
आपातकालीन कॉल	39
अपने डेटा का ध्यान रखें	40
रीसाइकल करना	41
ऐसे डेटा वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है	41
बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी	41
छोटे बच्चे	43
चिकित्सा उपकरण	43
प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण	43
सुनने की क्षमता	43
अपने डेटा की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें	44
वाहन	44
संभावित रूप से वसिफोटक जगहें	44
प्रमाणन जानकारी	44
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में	45
कॉपीराइट और अन्य नोटिस	46

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में



महत्वपूर्ण: अपने डविइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डविइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डविइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

2 शुरू करें


अपने फ़ोन को अद्यतति रखें

आपके फ़ोन का सॉफ़्टवेयर

अपना फ़ोन अद्यतति रखें और उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अपडेट स्वीकार करें ताकि आपको अपने फ़ोन के लिए नई ओर बेहतर सुविधाएँ मिल सकें. सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है.

कुंजियाँ और पुरजे

आपका फ़ोन



यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका नमिन् मॉडल पर लागू होती है: TA-1404, TA-1405, TA-1412, TA-1415, TA-1418.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. माइक्रोफ़ोन | 6. Google Assistant/Google खोज कुंजी* |
| 2. लाउडस्पीकर | 7. SIM और मेमोरी कार्ड स्लॉट |
| 3. NFC क्षेत्र (केवल TA-1418) | 8. फ्रंट कैमरा |
| 4. कैमरा | 9. हेडसेट कनेक्टर |
| 5. फ्लैश | 10. माइक्रोफ़ोन |

Nokia G21 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

11. ईयरपीस
12. वॉल्यूम कुंजियां
13. पावर/लॉक कुंजी, फ़िंगरप्रिंट सेंसर
14. USB कनेक्टर

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

आपका डेवाइस टाइप-C से टाइप-C केबल के साथ 18w USB पावर डिलीवरी 3.0 संगत फ़ास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है। हो सकता है कि फ़ास्ट चार्जर न प्रदान किया जाए, nokia.com/phones/nokia-g-21 पर जाकर स्थानीय उपलब्धता की जाँच करें।

*Google Assistant कुछ भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर Google Assistant उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ उसकी जगह Google खोज उपलब्ध रहेगा। <https://support.google.com/assistant> पर उपलब्धता देखें।


पार्ट और कनेक्टर, चुंबकत्व

सिग्नल उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट कनेक्ट न करें, क्योंकि इससे डेवाइस को क्षतिपिहूँच सकती है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डेवाइस के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृत दी गई चीजों के अलावा कोई बाह्य डेवाइस या हेडसेट कनेक्ट करते/करती हैं, तो वॉल्यूम के स्तर पर खास ध्यान दें।

डेवाइस के पुरजे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डेवाइस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या चुंबकीय पट्टी वाले अन्य कार्ड लंबे समय तक उपकरण के नजदीक न रखें, क्योंकि इससे आपके कार्ड खराब हो सकते हैं।

SIM और मेमोरी कार्ड डालना

कार्ड डालना



Nokia G21 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

1. SIM कार्ड ट्रे खोलें: ट्रे के छद्दिर में ट्रे खोलने वाला पनी घुसाएं और ट्रे को बाहर की ओर खसिकाएं.
2. नैनो-SIM को ट्रे में मौजूद SIM1 स्लॉट में इस तरह डालें कि उसके संपर्क क्षेत्र का रुख नीचे की तरफ़ हो.
3. यदि आपके पास ड्यूअल-SIM फ़ोन है, तो दूसरी SIM को SIM2 स्लॉट में रखें.
4. यदि आपके पास मेमोरी कार्ड है, तो इसे मेमोरी कार्ड स्लॉट में रखें.
5. ट्रे को वापस अंदर खसिकाएं.



सुझाव: यह जानने के लिए कि क्या आपका फ़ोन 2 समि कार्ड का उपयोग कर सकता है, बकिरी बॉक्स पर लेबल देखें। यदि लेबल पर 2 IMEI कोड मौजूद हैं, तो आपके पास ड्यूअल-समि फ़ोन है.




टपि: जाने-माने नरिमाता द्वारा नरिमति एक तेज़, 512 GB तक के microSD मेमोरी कार्ड का उपयोग करें.



महत्वपूर्ण: जब कोई ऐप मेमोरी कार्ड का उपयोग कर रहा हो तो उसे न निकालें। ऐसा करने से मेमोरी कार्ड और डविाइस को नुकसान हो सकता है तथा कार्ड पर संग्रहीत डेटा भी दूषति हो सकता है।

अपना फ़ोन चार्ज करें

बैटरी चार्ज करें



1. दीवार पर लगे पावर आउटलेट में एक संगत चार्जर लगाएं.
2. केबल अपने फ़ोन से कनेक्ट करें.

आपका फ़ोन USB-C केबल को सहायक है. आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से USB केबल के ज़रिये भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा.

यदि बैटरी पूरी तरह से डसिचार्ज हो चुकी है, तो चार्जिंग संकेतक के प्रदर्शति होने में कई मनिट लग सकते हैं.

फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें

जब आप अपना फ़ोन पहली बार चालू करते हैं, तो फ़ोन आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन और फ़ोन सेटिंग सेट अप करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है.

अपना फ़ोन चालू करें

1. अपना फ़ोन चालू करने के लिए, पावर कुंजी को तब तक दबाए रखें, जब तक कि फ़ोन में कंपन न हो.
2. जब आपका फ़ोन चालू हो, तब अपनी भाषा और क्षेत्र चुनें.
3. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

अपने पछिले फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करें

आप अपने Google खाते का उपयोग करके किसी पुराने फ़ोन से अपने नए फ़ोन में डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं.

अपने पुराने फ़ोन के डेटा का Google खाते पर बैक अप लेने के लिए, अपने पुराने फ़ोन की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

अपने पछिले Android™ फ़ोन की ऐप सेटिंग पुनर्स्थापित करें

यदि आपका पछिला फ़ोन Android था और उस पर Google खाते पर बैक अप लेने की सुविधा सम्भव है, तो आप अपनी ऐप सेटिंग और वाई-फ़ाई पासवर्ड पुनर्स्थापित कर सकते हैं.

1. **सेटिंग** > **खाते** > **खाता जोड़ें** > **Google** पर टैप करें.
2. वह डेटा चुनें, जिसे आप अपने नए फ़ोन पर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं. जैसे ही आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, समन्वयन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी.

दोहरी SIM सेटिंग

यदि आपके पास ड्यूल-SIM फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन में 2 SIM रख सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक अपने कामकाज के लिए और दूसरा अपने नज़ी उपयोग के लिए.

यह चुनें कि आप कौन-से SIM का उपयोग करना चाहते हैं

उदाहरण के लिए, कॉल करते समय आप नंबर डायल करने के बाद संबंधित SIM 1 या SIM 2 बटन पर टैप करके वह SIM चुन सकते हैं, जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं.

आपका फ़ोन दोनों SIM की नेटवर्क स्थिति अलग-अलग दिखाता है. जब डवाइस का उपयोग न किया जा रहा हो, तब दोनों SIM कार्ड एक ही समय पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक SIM कार्ड सक्रिय हो, उदाहरण के लिए कॉल करते समय, तब दूसरा वाला उपलब्ध नहीं होगा.

अपने SIM प्रबंधित करें

क्या आप अपने खाली समय के दौरान कामकाज का हस्तक्षेप नहीं चाहते? अथवा क्या आपके एक SIM पर अपेक्षाकृत सस्ता डेटा कनेक्शन है? आप तय कर सकते हैं कि आप कौन-से SIM का उपयोग करना चाहते हैं।

सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > मोबाइल नेटवर्क पर टैप करें और SIM कार्ड पर टैप करें।

SIM कार्ड का नाम बदलें

आप जिस SIM का नाम बदलना चाहते हैं, उस पर टैप करें, ✎ पर टैप करें और अपना मनचाहा नाम टाइप करें।

अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें

अपना फ़ोन लॉक करें

यदि आप नहीं चाहते कि जब आपका फ़ोन आपकी जेब या बैग में हो, तब गलती से कॉल हो जाए, तो आप अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक कर सकते हैं।

अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक करने के लिए, पावर कुंजी दबाएं।

कुंजियां और स्क्रीन अनलॉक करें

पावर कुंजी दबाएं और स्क्रीन पर ऊपर की तरफ़ स्वाइप करें। मांगे जाने पर, अतिरिक्त क्रेडेंशियल प्रदान करें।

टच स्क्रीन का उपयोग करें


महत्वपूर्ण: टच स्क्रीन को खरोंच लगने से बचाएँ। टच स्क्रीन पर कभी भी वास्तविक पेन, पेंसिल या अन्य नुकीली चीज़ का उपयोग न करें।

किसी आइटम को खींचने के लिए टैप और होल्ड करें



अपनी अंगुली को आइटम पर कुछ सेकंड तक रखें और फिर अपनी अंगुली को स्क्रीन के एक से दूसरे सरि की ओर सरकाएं.

स्वाइप करें




अपनी अंगुली स्क्रीन पर रखें और उसे अपनी मनचाही दशा में स्लाइड करें.

किसी लंबी सूची या मेनू को स्क्रॉल करें



अपनी अंगुली को स्क्रीन पर तेज़ी से ऊपर या नीचे सलाइड करें और अपनी अंगुली ऊपर उठा लें. स्क्रॉलिंग बंद करने के लिए, स्क्रीन पर टैप करें.

ज़ूम इन या आउट करें



मानचित्र, फ़ोटो या वेब पृष्ठ जैसे किसी आइटम पर 2 अंगुलियां रखें और अपनी अंगुलियों को अलग-अलग दिशा में या एक साथ सलाइड करें.

स्क्रीन अभिविन्यास लॉक करें

जब आप अपने फोन को 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तो स्क्रीन अपने आप घूम जाती है।

स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में लॉक करने के लिए स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें और **स्वतः घुमाना** पर टैप करें।

जेस्चर का उपयोग करके नेवगिट करें

जेस्चर नेवगिशन का उपयोग करके चालू पर स्वचि करने के लिए, **सेटिंग** > **सस्टिम** > **जेस्चर** > **सस्टिम नेवगिशन** > **जेस्चर नेवगिशन** पर टैप करें।

- अपने सभी ऐप को देखने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें।
- होम स्क्रीन पर जाने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें। आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा।
- आपके पास कौन से ऐप खुले हैं, यह देखने के लिए स्क्रीन के नचिले भाग से ऊपर की ओर अपनी उंगली को उठाए बिना स्वाइप करें, जब तक आप ऐप नहीं देखते हैं और फिर अपनी उंगली छोड़ दें। किसी अन्य खुले ऐप पर स्वचि करने के लिए, ऐप पर टैप करें। सभी खुले ऐप बंद करने के लिए, **सभी मटाएं** पर टैप करें।
- पछिली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए आप स्क्रीन के दाएं या बाएं किनारे से स्वाइप करें। आपका फोन पछिली बार आपकी स्क्रीन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है।

कुंजियों का उपयोग करके नेवगिट करें

नेवगिशन कुंजियाँ चालू पर स्वचि करने के लिए, **सेटिंग** > **सस्टिम** > **जेस्चर** > **सस्टिम नेवगिशन** > **3-बटन नेवगिशन** पर टैप करें।

- अपने सभी ऐप को देखने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें।
- होम स्क्रीन पर जाने के लिए, होम कुंजी पर टैप करें। आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा।
- यह देखने के लिए कि आपके कौन-कौन से ऐप खुले हुए हैं, **सभी मटाएं** पर टैप करें। किसी अन्य खुले ऐप पर स्वचि करने के लिए, दाएं स्वाइप करें और ऐप को टैप करें। सभी खुले ऐप बंद करने के लिए, **सभी मटाएं** पर टैप करें।
- आप पहले जिस स्क्रीन पर थे उस पर वापस जाने के लिए, **<** पर टैप करें। आपका फोन पछिली बार आपकी स्क्रीन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है।

3 बुनियादी तथ्य

अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें

अपना वॉलपेपर बदलें

सेटिंग > प्रदर्शन > बेहतर सेटिंग > वॉलपेपर पर टैप करें.

अपने फ़ोन की रिंगटोन बदलना

सेटिंग > ध्वनि > फ़ोन रिंगटोन SIM1 या फ़ोन रिंगटोन SIM2 पर टैप करें और टोन चुनें.

अपने संदेश की नोटिफ़िकेशन ध्वनि बदलें

सेटिंग > ध्वनि > उन्नत > सामान्य सूचना ध्वनि पर टैप करें.

नोटिफ़िकेशन


नोटिफ़िकेशन फलक का उपयोग करें

संदेश या छूटी कॉल जैसे नए नोटिफ़िकेशन प्राप्त होने पर, स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद आइकन दिखाई देते हैं.

नोटिफ़िकेशन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, स्क्रीन के शीर्ष से नीचे स्वाइप करें. दृश्य बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें.

ऐप की सूचना सेटिंग को बदलने के लिए सेटिंग > ऐप और सूचनाएं टैप करें और ऐप का नाम और नोटिफ़िकेशन टैप करें.

त्वरति सेटिंग आइकन का उपयोग करें



सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए, नोटिफिकेशन पैनल पर मौजूद त्वरति सेटिंग आइकन पर टैप करें. अधिक आइकन देखने के लिए, मेनू को नीचे की ओर खींचें.

इन आइकनों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, ✎ पर टैप करें, किसी आइकन पर टैप करके उसे दबाकर रखें और फिर उसे खींचते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं.

वॉल्यूम नियंत्रित करें

वॉल्यूम बदलें

यदि आपको शोरगुल वाले परिवेश में अपने फ़ोन की रिंग सुनने में परेशानी हो रही है या कॉल की आवाज़ ज़रूरत से ज्यादा है, तो आप अपने फ़ोन के कनारे स्थित वॉल्यूम कुंजियों का उपयोग करके वॉल्यूम को मनचाहे स्तर पर बदल सकते हैं.

ऐसे उत्पादों के साथ कनेक्ट न करें, जो आउटपुट सिग्नल पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर डविइस को नुकसान पहुंच सकता है. ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज स्रोत कनेक्ट न करें. यदि आप ऑडियो कनेक्टर के साथ इस डविइस के साथ उपयोग के लिए अनुमोदित डविइस या हैडसेट के बजाय कोई बाहरी डविइस या हैडसेट कनेक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम स्तरों पर विशेष ध्यान दें.

मीडिया और ऐप्स का वॉल्यूम बदलें

वॉल्यूम स्थितिबार देखने के लिए अपने फ़ोन के कनारे स्थित वॉल्यूम कुंजी दबाएं, फिर ≡ पर टैप करें फिर मीडिया और ऐप्स के लिए वॉल्यूम बार के स्लाइडर को बाएं या दाएं खींचें.

फ़ोन को मौन पर सेट करें

फ़ोन को साइलेंट पर सेट करने के लिए, वॉल्यूम नीचे कुंजी दबाएँ, Δ पर टैप करके अपने फ़ोन को केवल वाइब्रेट करने पर सेट करें और \square पर टैप करके इसे साइलेंट पर सेट करें।

स्वचालति लेख सुधार

कीबोर्ड और शब्द सुझावों का उपयोग करें

जैसे-जैसे आप लिखते जाते हैं, आपका फ़ोन आपको शब्दों का सुझाव देता जाता है, ताकि आपको अधिक तेज़ी और सटीकता से लिखने में मदद मिले। हो सकता है सभी भाषाओं के लिए शब्द सुझाव उपलब्ध न हों।

जब आप कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं, तो आपका फ़ोन संभावित शब्दों का सुझाव देता है। जब सुझाव बार में आपका वांछित शब्द दिखाया जाए, तो उसे चुन लें। और सुझाव देखने के लिए, सुझाव पर टैप करें और दबाकर रखें।

युक्त: यदि सुझाया गया शब्द बोल्ड अक्षरों में चिह्नित है, तो आपका फ़ोन स्वचालति रूप से उसका उपयोग करके उससे आपके द्वारा लिखे गए शब्द को बदल देता है। यदि शब्द गलत है, तो कुछ और सुझाव देखने के लिए शब्द पर टैप करें और दबाकर रखें।



यदि आप नहीं चाहते हैं कि कीबोर्ड लिखने के दौरान शब्दों का सुझाव दे तो पाठ सुधार बंद कर दें। **सेटिंग > सस्टिम > भाषाएं और इनपुट > ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड** पर टैप करें। आप जिस कीबोर्ड का सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, उसे चुनें। **लेख सुधार** टैप करें और उन पाठ सुधार वधियों को बंद कर दें जिनका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं।

किसी शब्द को सही करें

यदि आप देखते हैं कि आपने किसी शब्द की वर्तनी गलत लिखी हुई है, तो उस पर टैप करके शब्द को ठीक करने के सुझाव देखें।

वर्तनी परीक्षक बंद करें

सेटिंग > सस्टिम > भाषाएं और इनपुट > उन्नत > वर्तनी परीक्षक पर टैप करें और **वर्तनी परीक्षक का उपयोग करें** को बंद करें।

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant चुनदा बाज़ारों और भाषाओं में ही उपलब्ध है। जहां पर Google Assistant उपलब्ध नहीं होगा, वहां उसकी जगह Google खोज उपलब्ध रहेगा। <https://support.google.com/assistant> पर उपलब्धता देखें। Google Assistant ऑनलाइन जानकारी खोजने, शब्दों और वाक्यों का अनुवाद करने, नोट और कैलेंडर वाले अपॉइंटमेंट बनाने जैसे काम करने में आपकी मदद कर सकता है। आप अपना फ़ोन लॉक होने पर भी Google Assistant का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, आपके नज़ी डेटा को एक्सेस करने से पहले Google Assistant आपको अपना फ़ोन अनलॉक करने कहेगा।

Google Assistant कुंजी का उपयोग करना

Google Assistant की सेवाओं को एक्सेस करने के लिए अपने फ़ोन के कनारे पर दफ़ि गए Google Assistant कुंजी का उपयोग करें:

- Google Assistant प्रारंभ करने के लिए कुंजी को एक बार दबाएं.
- Google Assistant से बात करने के लिए कुंजी को दबाकर रखें. अपना प्रश्न पूछें और कुंजी दबाना छोड़ दें. आपको अपने फ़ोन के डिसप्ले पर Google Assistant का उत्तर दिखाई देगा.

अगर आपके देश या क्षेत्र में Google Assistant चलाने की सुविधा नहीं है, तो भी आप Google Assistant कुंजी का उपयोग कर सकते हैं:

- Google खोज खोलने के लिए एक बार कुंजी दबाएँ.
- Google वॉइस खोज सुविधा का उपयोग करने के लिए कुंजी को दबाकर रखें. अपना प्रश्न पूछें और कुंजी दबाना छोड़ दें. आपको अपने फ़ोन के डिसप्ले पर Google का उत्तर दिखाई देगा.

Google Assistant कुंजी को बंद करना

Google Assistant कुंजी को बंद करने के लिए **सेटिंग** > **सस्टिम** > **जेस्चर** > **Google Assistant बटन** पर टैप करें और **Google Assistant बटन** को बंद करें.

बैटरी लाइफ़

कुछ ऐसे उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ़ोन पर पावर की बचत कर सकते हैं.

बैटरी लाइफ़ बढ़ाएं

पावर की बचत करने के लिए:

1. बैटरी को हमेशा पूरी तरह चार्ज करें.
2. अनावश्यक ध्वनियों को म्यूट कर दें, जैसे कसिपर्श करने पर नकिलने वाली ध्वनियाँ. **सेटिंग** > **ध्वनि** > **उन्नत** पर टैप करें और **अन्य ध्वनियाँ और कंपन्न** के अंतर्गत, वे ध्वनियाँ चुनें जिन्हें आप रखना चाहते हैं.
3. लाउडस्पीकर की जगह वायर्ड हेडफ़ोन का उपयोग करें.
4. फ़ोन स्क्रीन को थोड़े समय के बाद बंद होने के लिए सेट करें. **सेटिंग** > **प्रदर्शन** > **उन्नत** > **स्क्रीन टाइमआउट** पर टैप करें और समय चुनें.
5. **सेटिंग** > **प्रदर्शन** > **चमक स्तर** पर टैप करें. चमक समायोजित करने के लिए चमक स्तर के स्लाइडर को खींचें. सनश्चिति करें कि बेहतर सेटिंग > **अनुकूलनीय रोशनी** अक्षम हो.
6. ऐप्लिकेशन को पृष्ठभूमि में चलने से रोकें.
7. स्थान सेवाओं का सोच-समझकर उपयोग करें: जब आपको स्थान सेवाओं की ज़रूरत न हो, तो

उन्हें बंद कर दें. सेटिंग **सुरक्षा** > **स्थान** पर टैप करें और **स्थान का उपयोग करें** को अक्षम करें.

8. नेटवर्क कनेक्शन का सोच-समझकर उपयोग करें: ब्लूटूथ तभी चालू करें, जब उसकी ज़रूरत हो. इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन के बजाय वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करें. अपने फ़ोन को उपलब्ध वायरलेस नेटवर्क स्कैन करने से रोकें. **सेटिंग**

> **नेटवर्क और इंटरनेट** > **वाई-फ़ाई** पर टैप करें और **वाई-फ़ाई का उपयोग करें** को अक्षम करें. यदि आप संगीत सुन रहे हैं या फ़िर अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं और कॉल करना या कॉल प्राप्त करना नहीं चाहते, तो **हवाई जहाज मोड** चालू कर दें. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **हवाई जहाज मोड** पर टैप करें. **हवाई जहाज मोड** मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन बंद कर देता है और आपके डेटा का वायरलेस सुविधाओं को बंद कर देता है.

एक्सेस योग्यता

अपने फ़ोन का उपयोग आसान बनाने के लिए आप विभिन्न सेटिंग बदल सकते हैं.

अक्षरों का आकार बढ़ाएं या घटाएं

क्या आप अपने फ़ोन पर बड़े आकार के अक्षर चाहते हैं?

1. **सेटिंग** > **एक्सेस योग्यता** पर टैप करें.
2. **अक्षरों का आकार** पर टैप करें. अक्षरों का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए अक्षरों के आकार का स्तर विकल्प का स्लाइडर खींचें.

प्रदर्शन आकार बढ़ाएं या घटाएं

क्या आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद आइटमों का आकार छोटा या बड़ा करना चाहते हैं?

1. **सेटिंग** > **एक्सेस योग्यता** पर टैप करें.
2. **प्रदर्शन आकार** पर टैप करें और प्रदर्शन आकार समायोजित करने के लिए प्रदर्शन आकार का स्तर विकल्प का स्लाइडर खींचें.

4 अपने मंत्रियों और परिवार के साथ कनेक्ट करें

कॉल

एक कॉल करें

1. 📞 पर टैप करें.
2. ☰ पर टैप करें और नंबर लखें, या 📞 पर टैप करें और वह संपर्क चुनें जिससे आप कॉल करना चाहते हैं.
3. 📞 पर टैप करें. यदि आपने दूसरा SIM कार्ड भी डाला हुआ है, तो उस SIM से कॉल करने के लिए उससे संबंधित आइकन पर टैप करें.

किसी कॉल का उत्तर दें

स्क्रीन अनलॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो **उत्तर दें** पर टैप करें. स्क्रीन लॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो उत्तर देने के लिए ऊपर स्वाइप करें.

कॉल को अस्वीकार करें

स्क्रीन अनलॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो **अस्वीकार करें** पर टैप करें. स्क्रीन लॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो कॉल अस्वीकार करने के लिए नीचे स्वाइप करें.

संपर्क

कॉल इतिहास से कोई संपर्क सहेजें

1. अपना कॉल इतिहास देखने के लिए 📞 > 🕒 पर टैप करें.
2. उस नंबर पर टैप करें, जिससे आप सहेजना चाहते हैं.
3. **संपर्क जोड़ें** पर टैप करें. यदि यह नया संपर्क है, तो संपर्क जानकारी में टाइप करें और **सहेजें** पर टैप करें. यदि यह संपर्क आपकी संपर्क सूची में पहले से है, तो **मौजूदा में जोड़ें** पर टैप करें, संपर्क का चयन करें और **सहेजें** पर टैप करें.

कोई संपर्क जोड़ना

1. **संपर्क** > **+** पर टैप करें.
2. जानकारी भरें.
3. **सहेजें** पर टैप करें.

संदेश भेजें

संदेश भेजना

1. **संदेश** पर टैप करें।
2. **चैट प्रारंभ करें** पर टैप करें।
3. कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए **⋮** पर टैप करें, उसका नंबर टाइप करें और **✓** पर टैप करें। अपनी संपर्क सूची से कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, उसका नाम टाइप करना शुरू करें और उस संपर्क पर टैप करें।
4. अधिक प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, **⋮** पर टैप करें। सभी प्राप्तकर्ता चुनने के बाद, **अगला** पर टैप करें।
5. लेख संदेश बॉक्स में अपना संदेश लिखें।
6. **▶** पर टैप करें।

मेल

आप चलते-फरिते अपने फ़ोन से मेल भेज सकते हैं।

एक मेल खाता जोड़ें

पहली बार Gmail ऐप का उपयोग करने पर, आपसे अपना ईमेल खाता सेट अप करने को कहा जाता है।

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. आप अपने Google खाते से कनेक्ट पता चुन सकते हैं या फिर **एक ईमेल पता जोड़ें** पर टैप कर सकते हैं।
3. सभी खाते जोड़ने के बाद, **मुझे GMAIL पर ले जाएं** पर टैप करें।

मेल भेजें


1. **Gmail** पर टैप करें।
2. **✍** पर टैप करें।
3. **प्रति** बॉक्स में, एक पता टाइप करें या **⋮ >** **संपर्क से जोड़ें** पर टैप करें।
4. संदेश का विषय और फिर मेल टाइप करें।
5. **▶** पर टैप करें।

5 कैमरा



कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें

फोटो लें

स्पष्ट और जीवंत फोटो शूट करें – अपने फोटो एल्बम में यादगार पलों को कैप्चर करें.


1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. लक्ष्य बांधें और फोकस करें.
3.  पर टैप करें.

सेल्फी लें


1. फ्रंट कैमरे पर स्विच करने के लिए **कैमरा** >  पर टैप करें.
2.  पर टैप करें.

Google लेन्स का उपयोग करना

Google लेन्स के ज़रिए आप अपने कैमरे के व्यूफ़ाइंडर का उपयोग करके चीज़ों को पहचानने, पाठ की प्रतिलिपिबिनाने और उसी तरह के उत्पाद खोजने जैसे काम कर सकते हैं.

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2.  पर टैप करें.
3. आप जिस चीज़ को पहचानना चाहते हैं उसकी ओर कैमरा दिखाएं और डिसिप्ले पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.



युक्ति: आप अपनी पहले से ली गई फोटो में भी Google लेन्स का उपयोग कर सकते हैं. **फोटो** पर टैप करें, उस फोटो पर टैप करें और  पर टैप करें.

वीडियो

वीडियो रिकॉर्ड करें

Nokia G21 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में बदलने के लिए, **वीडियो** पर टैप करें.
3. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए **⊙** पर टैप करें.
4. रिकॉर्डिंग रोकने के लिए **⊙** पर टैप करें.
5. कैमरा मोड पर वापस जाने के लिए, **फ़ोटो** पर टैप करें.

आपके फ़ोटो और वीडियो

अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें

फ़ोटो पर टैप करें.

अपने कंप्यूटर पर अपने फ़ोटो और वीडियो कॉपी करें

क्या आप अपने फ़ोटो या वीडियो किसी बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? उन्हें अपने कंप्यूटर पर ले जाएं.

अपने फ़ोटो और वीडियो कंप्यूटर पर कॉपी करने या स्थानांतरित करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के फ़ाइल मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं.

अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये कंप्यूटर से कनेक्ट करें. USB कनेक्शन प्रकार सेट करने के लिए, नोटफिकेशन फ्लैक खोलें और USB नोटफिकेशन पर टैप करें.

अपने फ़ोटो और वीडियो साझा करें

1. **फ़ोटो** पर टैप करें, उस फ़ोटो पर टैप करें, जिससे आप साझा करना चाहते हैं और **↵** पर टैप करें.
2. यह चुनें कि आप किस तरह फ़ोटो या वीडियो साझा करना चाहते हैं.


6 इंटरनेट और कनेक्शन

वाई-फ़ाई सक्रिय करें


वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करने की तुलना में अधिक तेज़ और कम खर्चीला होता है। यदि वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन दोनों उपलब्ध हों, तो आपका फ़ोन वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करता है।

वाई-फ़ाई चालू करना

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **Wi-Fi** पर टैप करें।
2. **Wi-Fi का उपयोग करें** को चालू करें।
3. आप जिस कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं उसे चुनें।

जब स्क्रीन के ऊपर स्थिति स्थितिबार में  दिखाई दे तो समझ लें कि आपका वाई-फ़ाई कनेक्शन सक्रिय है।

महत्वपूर्ण: अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है।

 **युक्ति:** यदि आप सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध न होने पर स्थान ट्रैक करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, जब आप घर के अंदर या ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच हों, तब वाई-फ़ाई चालू करके अपनी स्थितिकी सटीकता सुधारें।


¹ नोट: कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.35 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

महत्वपूर्ण: अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है।

वेब ब्राउज़ करें

वेब खोजें

1. **Chrome** पर टैप करें।
2. खोज फ़ील्ड में कोई खोज शब्द या वेब पता लखें।
3. → पर टैप करें या प्रस्तावित मिलानों से चुनें।

 **सुझाव:** यदि आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता आपसे डेटा स्थानांतरण के लिए कोई नशिचति शुल्क नहीं लेता है, तो डेटा लागत बचाने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वाई-फ़ाई नेटवर्क का उपयोग करें।

अपने फ़ोन का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को वेब से कनेक्ट करें

अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके अपने लैपटॉप या अन्य डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस करें।

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **हॉटस्पॉट और टेदरगि** पर टैप करें।
2. वाई-फ़ाई पर अपना मोबाइल डेटा कनेक्शन साझा करने के लिए **वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट** को, USB कनेक्शन का उपयोग करने के लिए **USB टेदरगि** को, बलूथ का उपयोग करने के लिए **ब्लूटूथ टेदरगि** को या USB ईथरनेट केबल का उपयोग करने के लिए **ईथरनेट टेदरगि** को चालू करें।

दूसरा डिवाइस आपके डेटा प्लान के डेटा का उपयोग करता है, जिसके लिए आपसे डेटा ट्रैफ़िक शुल्क लिया जा सकता है। उपलब्ध और लागतों की जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

BLUETOOTH®

आप फ़ोन, कंप्यूटर, हेडसेट और कार कटि जैसे अन्य संगत डिवाइस के साथ वायरलेस रूप से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने फ़ोटो संगत फ़ोन या अपने कंप्यूटर को भी भेज सकते हैं।

किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करें

आप अपना फ़ोन कई उपयोगी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वायरलेस हेडसेट (अलग से खरीदा जा सकता है) की सहायता से आप हैंड्स-फ्री रहकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं – आप अपना कोई भी काम जारी रख सकते हैं, जैसे कॉल के दौरान अपने कंप्यूटर पर काम करना। फ़ोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना युग्मन कहलाता है।

1. **सेटिंग** > **कनेक्टेड डिवाइस** > **कनेक्शन प्राथमिकताएँ** > **ब्लूटूथ** पर टैप करें।
2. **ब्लूटूथ** का स्वचि **चालू** करें।
3. सुनिश्चित करें कि अन्य डिवाइस भी चालू है। आपको दूसरे डिवाइस से युग्मन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। वविरण के लिए, दूसरे डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।
4. **नया डिवाइस युग्मति करें** पर टैप करें और खोजे गए ब्लूटूथ डिवाइस की सूची में से उस डिवाइस पर टैप करें, जिसे आप युग्मति करना चाहते हैं।
5. आपको एक पासकोड टाइप करना पड़ सकता है। वविरण के लिए, दूसरे डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।

चूंकि ब्लूटूथ वायरलेस प्रौद्योगिकी वाले डिवाइस संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिरेखा में होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि, ब्लूटूथ डिवाइस एक दूसरे से 10 मीटर (33 फुट) की दूरी पर होने चाहिए। दीवार जैसी रुकावटों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा पैदा किए जाने वाले व्यवधान के कारण कनेक्शन प्रभावित हो सकता है।


Bluetooth चालू होने पर युग्मति डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं। अन्य डिवाइस आपके फ़ोन का पता केवल तभी लगा सकेंगे, जब ब्लूटूथ सेटिंग दृश्य खुला हो।

अज्ञात डिवाइस के साथ न तो युग्मति करें न उनके कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें। इससे आपके फ़ोन को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

ब्लूटूथ का उपयोग करके अपनी सामग्री साझा करें

अगर आप अपनी फ़ोटो या अन्य सामग्री को किसी मतिर से साझा करना चाहते हैं, तो ब्लूटूथ का उपयोग करके उन्हें अपने मतिरों को भेजें।


आप एक बार में एक से अधिक ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लूटूथ हेडसेट का उपयोग करते समय, आप अभी भी अन्य फ़ोन को सामग्री भेज सकते हैं।

1. सेटिंग > कनेक्टेड डिवाइस > कनेक्शन प्राथमकताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें।
2. सुनिश्चित करें कि दोनों फ़ोन पर ब्लूटूथ चालू है और फ़ोन एक दूसरे के लिए दृश्यमान हैं।
3. आप जिस सामग्री को भेजना चाहते हैं उस पर जाएं और  > ब्लूटूथ पर टैप करें।
4. प्राप्त ब्लूटूथ डिवाइस की सूची में अपने मतिर के फ़ोन पर टैप करें।
5. यदि दूसरे फ़ोन के लिए पासकोड की जरूरत है, तो पासकोड टाइप करें या स्वीकार करें और टैप करें। युग्मति करें।

पासकोड का उपयोग सिर्फ़ तभी किया जाता है, जब आप पहली बार किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं।

युग्मन नकालें

यदि अब आपके पास वह डिवाइस नहीं है, जिसके साथ आपने अपना फ़ोन युग्मति किया था, तो आप वह युग्मन नकाल सकते हैं।

1. सेटिंग > कनेक्टेड डिवाइस > पूर्व में कनेक्टेड डिवाइस पर टैप करें।
2. डिवाइस नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें।
3. भूल जाएं पर टैप करें।

VPN


अपनी कंपनी के संसाधन, जैसे कि इंटरनेट या कॉर्पोरेट मेल एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) कनेक्शन की जरूरत हो सकती है, या फिर आप व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किसी VPN सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

अपने VPN कॉन्फ़िगरेशन के विवरण हेतु अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक से संपर्क करें या अतिरिक्त जानकारी के लिए अपनी VPN सेवा की वेबसाइट पर नज़र डालें।


एक सुरक्षित VPN कनेक्शन का उपयोग करें

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > उन्नत > VPN पर टैप करें।
2. एक VPN प्रोफ़ाइल जोड़ने के लिए, + पर टैप करें।
3. अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक या VPN सेवा के निर्देशानुसार अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी टाइप करें।

VPN प्रोफ़ाइल संपादित करें

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
2. जानकारी को आवश्यकतानुसार बदलें.

VPN प्रोफ़ाइल हटाएं

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
2. **भूल जाएं** पर टैप करें.

7 अपना दनि व्यवस्थति करें

दनिांक और समय

दनिांक और समय सेट करें

सेटगि > ससि्टम > दनिांक और समय पर टैप करें.

समय और दनिांक स्वचालति रूप से अपडेट करें

आप अपने फ़ोन को समय, दनिांक और समय क्षेत्र को स्वचालति रूप से अपडेट करने के लिए सेट कर सकते हैं. स्वचालति अपडेट एक नेटवर्क सेवा है और आपके क्षेत्र या नेटवर्क सेवा प्रदाता पर निर्भर करते हुए हो सकता है आपके लिए उपलब्ध न हो.

1. सेटगि > ससि्टम > दनिांक और समय पर टैप करें.
2. नेटवर्क-प्रदत्त समय का उपयोग करें को चालू पर स्वचि करें.
3. नेटवर्क-प्रदत्त समय क्षेत्र का उपयोग करें को चालू पर स्वचि करें.

घड़ी को 24-घंटे के प्रारूप में बदलें

सेटगि > ससि्टम > दनिांक और समय पर टैप करें और 24-घंटे के प्रारूप का उपयोग करें को चालू पर स्वचि करें.

अलार्म घड़ी

अलार्म सेट करें

1. घड़ी > अलार्म पर टैप करें.
2. अलार्म जोड़ने के लिए, + पर टैप करें.
3. घंटा और मनिट चुनकर ठीक पर टैप करें.
4. अलार्म को कुछ खास दनिांकों पर दोहराने हेतु सेट करने के लिए संबंधति सप्ताह के दनिों पर टैप करें.

अलार्म बंद करें

अलार्म बजने पर आप उसे दाई ओर स्वाइप करें.

कैलेंडर

कैलेंडर प्रबंधित करें

कैलेंडर > ≡ टैप करें और फिर चुनें कि आप किस प्रकार का कैलेंडर देखना चाहते हैं।

जब भी आप अपने फ़ोन में कोई खाता जोड़ते हैं, तो कैलेंडर स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं। कैलेंडर के साथ एक नया खाता जोड़ने के लिए, ऐप मेनू पर जाएं और **सेटिंग** > **खाते** > **खाता जोड़ें** टैप करें।

एक ईवेंट जोड़ें

1. **कैलेंडर** में, + पर टैप करें और प्रवर्षित प्रकार चुनें।
2. इच्छित विवरण टाइप करें और समय सेट करें।
3. ईवेंट को कुछ खास दिनों पर दोहराने के लिए, **नहीं दोहराया जाता** पर टैप करें और यह चुनें
4. क ईवेंट कतिनी बार दोहराया जाएगा।
5. रमिाइंडर सेट करने के लिए, **नोटिफिकेशन जोड़ें** पर टैप करें और समय सेट करें।
5. **सहेजें** पर टैप करें।



सुझाव: कोई ईवेंट संपादित करने के लिए, ईवेंट और ✎ पर टैप करके विवरण संपादित करें।

कोई अपॉइंटमेंट हटाएं

1. ईवेंट पर टैप करें।
2. ∴ > **हटाएं** पर टैप करें।

8 मानचित्र

स्थान ढूँढें और दिशानर्देश प्राप्त करें

कोई स्थान ढूँढें

Google मानचित्र की मदद से विशिष्ट स्थान और व्यवसाय ढूँढें.


1. मानचित्र पर टैप करें.
2. खोज बार में खोज शब्द, जैसे कसिड़क का पता या स्थान का नाम लखें.
3. लिखते समय प्रस्तावित मिलानों की सूची से एक आइटम चुनें या खोजने के लिए Q पर टैप करें.

स्थान मानचित्र पर दिखाया जाता है. यदि खोज का कोई परिणाम नहीं मिलता, तो सुनिश्चित करने की आपके खोज शब्दों की वर्तनी सही है.

अपना मौजूदा स्थान देखें

मानचित्र >  पर टैप करें.

किसी स्थान तक जाने के दिशानर्देश प्राप्त करें

1. मानचित्र पर टैप करें और खोज पट्टी में अपना गंतव्य दर्ज करें.
2. दिशाएं टैप करें. हाइलाइट किए गए आइकन परविहन का माध्यम दर्शाता है, उदाहरण के लिए . माध्यम बदलने के लिए, खोज पट्टी के अंतर्गत नया माध्यम चुनें.
3. यदि आप अपने मौजूदा स्थान को प्रारंभ बिंदु नहीं बनाना चाहते, तो अपने स्थान पर टैप करके एक नए प्रारंभ बिंदु की खोज करें.
4. नेविगेशन प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करें पर टैप करें.

मार्ग मानचित्र पर दिखाया जाता है और साथ ही इसका अनुमान भी दिखाया जाता है कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा. वस्तुतः दिशानर्देश देखने के लिए चरण पर टैप करें.

9 ऐप, अद्यतन और बैकअप

GOOGLE PLAY से ऐप प्राप्त करें

Google Play सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके फ़ोन पर एक Google खाता जोड़ना ज़रूरी है। शुरुआत Google Play में उपलब्ध कुछ सामग्री पर लगाए जा सकते हैं। भुगतान पद्धति जोड़ने के लिए, Play स्टोर, खोज फ़ील्ड पर अपना Google लोगो टैप करें, और फिर भुगतान और सब्सक्रिप्शन पर टैप करें। Google Play से सामग्री खरीदते समय भुगतान पद्धति के स्वामी की अनुमति लेना न भूलें।

ऐप्स डाउनलोड करें

1. Play स्टोर पर टैप करें।
2. ऐप्स ढूँढने के लिए खोज बार पर टैप करें या अपनी अनुशंसाओं से ऐप्स चुनें।
3. ऐप वर्णन में, ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करें पर क्लिक करें।

अपने ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर जाएँ और स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें।

अपने फ़ोन का स्थान खाली करें

यदि आपकी फ़ोन की मेमोरी भरने वाली है, तो फ़ाइलों को मेमोरी कार्ड में ले जाएँ या अनावश्यक फ़ाइलों को हटाएं।

फ़ाइलों को किसी मेमोरी कार्ड पर स्थानांतरित करें

अपनी फ़ोन मेमोरी से मेमोरी कार्ड में फ़ोटो ले जाने के लिए, फ़ाइलें > छवियाँ पर टैप करें। उस फ़ोटो को दबाकर रखें, जिससे आप ले जाना चाहते हैं और : > इस पर ले जाएँ > SD कार्ड पर टैप करें।

दस्तावेज़ों और फ़ाइलों को ले जाने के लिए, फ़ाइलें > दस्तावेज़ और अन्य पर टैप करें। फ़ाइल नाम के बगल में स्थिति : पर टैप करें और SD कार्ड में ले जाएँ पर टैप करें।

अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें

ताज़ा सुझानों से अवगत रहें – अपने फ़ोन के लिए नए और एनहांस्ड सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने फ़ोन सॉफ़्टवेयर और ऐप्स को वायरलेस के ज़रिये अपडेट करें। सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार आ सकता है।

उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें

अपडेट उपलब्ध है या नहीं यह देखने के लिए **सेटिंग** > **सस्टिम** > **उन्नत** > **सस्टिम अपडेट** > **अपडेट की जांच करें** पर टैप करें.

जब आपका फ़ोन आपको किसी अपडेट के उपलब्ध होने की सूचना दे, तो अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले नर्देशों का पालन करें. यदि आपकी फ़ोन मेमोरी कम हो गई है, तो आपको अपने ऐप्स, फ़ोटो या अन्य सामग्री मेमोरी कार्ड पर ले जानी होगी.

चेतावनी: यदि आप सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करते हैं, तो अपने डेटा से आपातकालीन कॉल भी नहीं कर सकेंगे. आपको इंस्टॉलेशन पूरा होने और डेटा के फेरि से चालू होने तक प्रतीक्षा करनी होगी.

अपडेट शुरू करने से पहले, चार्जर कनेक्ट कर लें या सुनिश्चित कर लें कि डेटा की बैटरी में पर्याप्त पावर है और फेरि वाई-फ़ाई से कनेक्ट करें, क्योंकि अपडेट पैकेज आपका बहुत सारा मोबाइल डेटा खर्च कर सकते हैं.

अपने डेटा का बैकअप लें

अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने फ़ोन में बैकअप सुविधा का उपयोग करें. आपका डेटा (जैसे वाई-फ़ाई पासवर्ड और कॉल इतिहास) और ऐप डेटा (जैसे कि सेटिंग और ऐप्स द्वारा संग्रहित फ़ाइलें) का बैकअप दूरस्थ रूप से लिया जाएगा.

स्वचालित बैकअप चालू करें

सेटिंग > **सस्टिम** > **बैकअप** पर टैप करें और बैकअप का स्वचालित चालू कर दें.

मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नजिी सामग्री हटाएं

दुर्घटनाएं हो सकती हैं – यदि आपका फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी सेटिंग्स पुनर्स्थापित कर सकते हैं. या, यदि आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं या अपने फ़ोन का अब और इस्तेमाल नहीं करना चाहते या उसे रीसाइकिल करना चाहते हैं, तो यहां बताया गया है कि ऐसा करने से पहले आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी और सामग्री कैसे हटा सकते हैं. याद रखें कि सभी नजिी सामग्री हटाना आपकी ज़िम्मेदारी है.

अपना फ़ोन रीसेट करें

1. **सेटिंग** > **सस्टिम** > **उन्नत** > **रीसेट विकल्प** > **सभी डेटा मटाएँ (फ़ैक्टरी रीसेट)** पर टैप करें.
2. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले नर्देशों का पालन करें.

10 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें

स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें

आप स्क्रीन अनलॉक करते समय अपने फ़ोन को प्रमाणीकरण का अनुरोध करने के लिए सेट कर सकते हैं।

एक स्क्रीन लॉक सेट करें

1. सेटिंग > सुरक्षा > स्क्रीन लॉक पर टैप करें.
2. लॉक का प्रकार चुनें और अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

अपने फ़ोन को अपने फ़िंगरप्रिंट से सुरक्षित करें

फ़िंगरप्रिंट जोड़ें

1. सेटिंग > सुरक्षा > अंगुली की छाप टैप करें.
2. वह बैकअप अनलॉक विधि चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें.


अपने फ़ोन को अपनी उंगली से अनलॉक करें

अपनी पंजीकृत उंगली पावर कुंजी पर रखें.

यदि कोई अंगुली की छाप सेंसर त्रुटि है, और आप फ़ोन को किसी भी तरह रिकवरी या रीसेट करने के लिए वैकल्पिक साइन-इन विधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन को अधिकृत कर्मियों द्वारा सर्विस कराने की आवश्यकता होगी. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के नजदीकतम सेवा केंद्र या अपने फ़ोन डीलर से संपर्क करें.

अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना

चेहरा प्रमाणीकरण सेट अप करें



1. **सेटिंग** > **सुरक्षा** > **चेहरे से अनलॉक** पर टैप करें.
2. वह बैकअप अनलॉक विधि चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें.

अपनी आंखें खुली रखें और सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा पूरी तरह से देखा जा सकता है और हैट तथा चश्मे जैसी किसी भी वस्तु से ढका हुआ नहीं है.

! **नोट:** अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने चेहरे का उपयोग करना फ़िंगरप्रिंट, पैटर्न या पासवर्ड का उपयोग करने से कम सुरक्षित होता है. आपके फ़ोन को आपकी तरह देखने वाले व्यक्ति या वस्तु द्वारा अनलॉक किया जा सकता है. पीछे की ओर प्रकाश होने पर या बहुत अधिक अंधेरे वा उजाले वातावरण में चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा काम नहीं कर सकती है.

अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपना फ़ोन अनलॉक करना

अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए बस स्क्रीन चालू करें और कैमरे की ओर देखें.

अगर चेहरे की पहचान करने में कोई त्रुटि हो रही है और आप फ़ोन को रिकवर या रीसेट करने के लिए किसी भी तरीके से साइन-इन की वैकल्पिक विधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फ़ोन की सर्वसिगि करानी होगी. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुविधा या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें.

अपने SIM का पिन कोड बदलें

यदि आपके SIM कार्ड में पहले से ही एक प्री-सेट पिन कोड था, तो आप उसे और भी सुरक्षित पिन कोड से बदल सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि सभी नेटवर्क सेवा प्रदाता इसका समर्थन करें.

अपना SIM पिन कोड चुनें

आप चुन सकते हैं कि सिमि पिन के लिए कनि संख्याओं का उपयोग किया जाए. SIM पिन कोड में 4-8 संख्याएं होनी चाहिए.

1. सेटिंग > सुरक्षा > उन्नत > सिमि कार्ड लॉक पर टैप करें.
2. चयनित SIM कार्ड के अंतर्गत, SIM पिन बदलें पर टैप करें.

एक्सेस कोड

जानें कि आपके फ़ोन पर मौजूद अलग-अलग कोड किस काम आते हैं.

पिन या पिन2 कोड

पिन या पिन2 कोड में 4-8 अंक होते हैं.

ये कोड आपके SIM कार्ड की अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करते हैं और कुछ सुविधाएं एक्सेस करने के लिए आवश्यक होते हैं. आप अपने फ़ोन के चालू होने पर उसे पिन कोड मांगने के लिए सेट कर सकते हैं.

यदि आप कोड भूल जाते हैं या वे आपके कार्ड के साथ प्रदान नहीं किए गए हैं, तो अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

यदि आप लगातार 3 बार गलत कोड डालते हैं, तो आपको PUK या PUK2 कोड का उपयोग करके कोड अनब्लॉक करना होगा.

PUK या PUK2 कोड

PUK या PUK2 कोड की जरूरत पिन या पिन2 कोड को अनब्लॉक करने के लिए पड़ती है.

यदि आपके SIM कार्ड के साथ कोड प्रदान नहीं किए गए हैं, तो अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

लॉक कोड

लॉक कोड को सुरक्षा कोड या पासवर्ड भी कहा जाता है.

लॉक कोड आपके फ़ोन की अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करने में आपकी मदद करता है. आप अपने फ़ोन को आपके द्वारा निर्धारित किया गया लॉक कोड मांगने के लिए भी सेट कर सकते हैं. कोड को अपने फ़ोन से अलग किसी गोपनीय और सुरक्षित स्थान में रखें.

यदि आप कोड भूल जाते हैं और आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, तो आपके फ़ोन को सेवा केंद्र ले जाना पड़ेगा. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुविधा या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें.

IMEI कोड

IMEI कोड का उपयोग नेटवर्क में मौजूद फ़ोन की पहचान के लिए किया जाता है। हो सकता है कि आपको अपने अधिकृत सेवा सुवधि या फ़ोन डीलर को नंबर देना पड़े। अपना IMEI नंबर देखने के लिए:

- *#06# डायल करें
- मूल बकिरी बॉक्स जाँचें

अगर आपके फ़ोन पर IMEI कोड मुद्रित है, तो आप इसे, उदाहरण के लिए, समि ट्रे पर या अगर आपके फ़ोन में नकालने योग्य पछिला कवर है, तो बैक कवर के नीचे मलि सकता है।

अपने फ़ोन का पता लगाएं या उसे लॉक करें

अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप उसे दूरस्थ रूप से खोज सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या मटिा सकते हैं, अगर आपने Google खाते में साइन इन किया है। Google खाते से संबद्ध फ़ोन के लिए मेरा डविाइस खोजें डफ़िऑल्ट रूप से चालू होता है।

मेरा डविाइस खोजें का उपयोग करने के लिए आपका गुम हुआ फ़ोन यह होना चाहिए:

- चालू किया गया
- Google Play पर दृश्यमान है
- Google खाते में साइन इन किया गया
- स्थान चालू किया गया
- मोबाइल डेटा या वाई-फाई से कनेक्टेड
- मेरा डविाइस खोजें चालू किया गया

जब मेरा डविाइस खोजें आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको फ़ोन का स्थान दिखाई देता है और फ़ोन पर सूचना प्राप्त होती है।

1. इंटरनेट से कनेक्ट किसी कंप्यूटर/टैबलेट या फ़ोन पर android.com/find खोलें और अपने Google खाते में साइन इन करें।
2. अगर आपके पास एक से अधिक फ़ोन हैं, तो स्क्रीन के ऊपरी भाग में गुम हुए फ़ोन पर क्लिक करें।
3. मानचित्र पर, यह देखें कि फ़ोन कहां है। स्थान अनुमानित होता है और हो सकता है कि यह सटीक न हो।

अगर आपका डविाइस नहीं मलि सकता है, तो मेरा डविाइस खोजें उपलब्ध होने पर इसका अंतिम ज्ञात स्थान दिखाएगा। अपने फ़ोन को लॉक करने या मटिाने के लिए, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें। इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

मना की गई जगहों पर डविइस बंद करें



जब मोबाइल डविइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डविइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें।

सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें। कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें। वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए।

व्यवधान



Nokia G21 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सभी वायरलेस डवाइस व्यवधान के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, जसिसे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है.

अधिकृत सेवा



इस उत्पाद को केवल अधिकृत कर्मचारी इंस्टॉल या मरम्मत कर सकते हैं.

बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें. अनुपयुक्त डवाइस कनेक्ट न करें.

अपने डवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डवाइस की तकनीकी विनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

कांच के पुरजे



इस डविाइस और/या इसकी स्क्रीन कांच से नर्मति है. यदि डविाइस किसी कठोर सतह पर गरिता है या उसे तेज़ आघात लगता है, तो यह कांच टूट सकता है. यदि कांच टूट जाता है, तो डविाइस के कांच के पुरजों को स्पर्श न करें या डविाइस से टूटा हुआ कांच निकालने का प्रयास न करें. जब तक अधिकृत सेवा कर्मचारी कांच न बदले, तब तक इस डविाइस का उपयोग न करें.

अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डविाइस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

SAR



यह डविाइस कान से सटाकर सामान्य स्थिति में उपयोग करने पर या फरि शरीर से कम-से-कम 1.5 सेमी (5/8 इंच) दूर रखने पर RF एक्सपोजर के दशानर्देशों का पालन करता है. SAR संबंधी अधिकतम वशिष्ट मान इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारी (SAR) वाले सेक्शन में पाई जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए, इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का प्रमाणन सूचना (SAR) अनुभाग देखें या www.sar-tick.com पर जाएं।

नेटवर्क सेवाएं और लागतें

कुछ सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करने, या मुफ्त सामग्री सहित सामग्री डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा का स्थानांतरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा लागत बढ़ सकती है। आपको कुछ सुविधाओं की सदस्यता लेने की भी आवश्यकता हो सकती है।

महत्वपूर्ण: हो सकता है आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता या यात्रा के दौरान आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा सेवा प्रदाता 4G/LTE का समर्थन न करता हो। ऐसे मामलों में, आप न तो कॉल कर सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे, न तो संदेश भेज सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे और न ही मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग कर सकेंगे। यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूर्ण 4G/LTE सेवा उपलब्ध न होने पर भी आपका डिवाइस निर्बाध काम करता रहे, तो आपको उच्चतम कनेक्शन गति को 4G से 3G में बदलने का सझाव दिया जाता है। ऐसा करने के लिए होम सकरीन पर **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > मोबाइल नेटवर्क** पर टैप करें और **पसंदीदा नेटवर्क के प्रकार** को **3G** पर बदलें।

नोट: कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5150–5350 MHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।


आपातकालीन कॉल


महत्वपूर्ण: सभी परिस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है। चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें।

कॉल करने से पहले:

- फ़ोन चालू करें।
- यदि फ़ोन स्क्रीन और कुंजियां लॉक हैं, तो उन्हें अनलॉक करें।
- ऐसी जगह पर चले जाएं, जहां सग्नल की शक्ति पर्याप्त है।

किसी भी स्क्रीन पर आपातकालीन कॉल करने के लिए, पावर कुंजी को 3 बार दबाएं।

होम स्क्रीन में,  पर टैप करें

1. अपने मौजूदा स्थान के लिए अधिकारिक आपातकालीन नंबर टाइप करें। आपातकालीन कॉल नंबर स्थान-दर-स्थान अलग-अलग होते हैं।
2.  पर टैप करें।
3. ज़रूरी और जतिनी हो सके सटीक जानकारी दें। कॉल समाप्त करने की अनुमति मिलने तक कॉल समाप्त न करें।

आपको नमिन् कार्य भी करना पड़ सकता है:

- फ़ोन में एक SIM कार्ड डालें। यदि आपके पास SIM नहीं है, तो लॉक स्क्रीन में **आपातकाल** पर टैप करें।
- यदि आपका फ़ोन पनि कोड मांगता है, तो **आपातकाल** पर टैप करें।
- अपने फ़ोन में कॉल बारगि, फ़िक्सड डायलिंग या क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप जैसे कॉल प्रतबंध बंद कर दें।
- यदि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो आप इंटरनेट से कॉल करने का भी प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें।

अपने डवाइस का ध्यान रखें

अपने डवाइस, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से उपयोग करें। नीचे दिए गए सुझावों की मदद से आप अपने डवाइस को कार्यशील बनाए रख सकते हैं।

- डवाइस को सूखा रखें। बारिश, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थ या नमी में ऐसे खनजि हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खराब कर सकते हैं।
- डवाइस को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या भंडारण न करें।
- डवाइस को उच्च तापमान पर न रखें। ऊंचे तापमान के कारण डवाइस या बैटरी क्षतिग्रस्त हो सकती है।
- डवाइस को ठंडे तापमान में न रखें। जब डवाइस अपने सामान्य तापमान तक गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर नमी पैदा हो कर उसे खराब कर सकती है।
- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए निर्देशों के अलावा डवाइस को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षतिपिहूंच सकती है तथा रेडियो उपकरणों को नियंत्रित करने वाले वनियमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डवाइस या बैटरी को गरिएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हलियां नहीं। लापरवाही से उपयोग करने पर वह टूट सकता है।
- डवाइस की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डवाइस पर पेंट न करें। पेंट उचित संचालन में रुकावट पैदा कर सकता है।
- डवाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कि आपका डवाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लिख लें।

वसितारति संचालन के दौरान, डवाइस छूने पर गर्म लग सकता है। अधिकांश मामलों में, यह एक आम बात होती है। खुद को बहुत गर्म होने से बचाने के लिए, डवाइस अपनी गतिस्वचालति रूप से कम कर सकता है, वीडियो कॉल के दौरान प्रदर्शन को कम कर सकता है, ऐप्स बंद कर सकता है, चार्जिंग बंद कर सकता है और ज़रूरी होने पर खुद को बंद कर सकता है। यदि डवाइस सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसे नकिततम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएँ।

रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके वद्युतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजिंग के मटेरियल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें। इससे अनियंत्रित कूड़े का नपिटारा करने और मटेरियल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरियल रहता है, जैसे कि धातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्नेशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और प्लैटिनम)। डवाइस के सारे मटेरियल को मटेरियल या ऊर्जा के तौर पर रिकवर किया जा सकता है।

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रॉस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रॉस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बनि पर क्रॉस के नशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है कि सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले डवाइस से नज्जी डेटा निकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर नगिम के नहीं छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने नज्जिम रीसाइकलिंग पॉइंट की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशिष्ट प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में www.hmd.com/phones/support/topics/recycle पर पढ़ें।

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फोन की बैटरी निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रित मार्गदर्शिका देखें।

नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डविाइस अपने डविाइस का केवल ओरजिनिल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें. बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डसिचार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी. जब टॉक और स्टैडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें.

बना नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण बैटरी नकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डविाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डसिचार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी. जब टॉक और स्टैडबाई का समय सामान्य से काफी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डविाइस को किसी नकितम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएँ.

अपने डविाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें. चार्जर के प्लग का प्रकार भिन्न हो सकता है. चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डविाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डविाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग नकाल दें. कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए. उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डसिचार्ज होती जाएगी.

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है. अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें. हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डविाइस कुछ देर तक काम न कर पाए. ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मनिटों में फोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति खो सकती है. जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फोन को गर्म रखें.

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें. संभव होने पर रीसाइकल करें. घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें.

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक नमिन् दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में नपिटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का वसिफोट या रसिाव हो सकता है.

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षतपिहुंचाने का काम न करें. बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें. ऐसा होने पर, प्रभावति जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें. बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फरि उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटति करने का काम न करें. क्षतपिहुंचाने पर बैटरी फट सकती है.

बैटरी या चार्जर का उपयोग नहिति उद्देश्यों के लिए ही करें. सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृति नहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, वसिफोट होने या अन्य खतरे का जोखमि उत्पन्न हो सकता है और इससे कोई भी स्वीकृति या वारंटी अमान्य हो सकती है. अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतगिरस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएँ या फरि अपने फोन डीलर को दिखाएं. कभी भी क्षतगिरस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें. केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें. बजिली कड़कने पर अपने डविाइस को चार्ज न करें. जब चार्जर बकिरी पैक में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डविाइस को चार्ज करें. आप अपने डविाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो. हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है.

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं।

इसके अलावा, यदि आपके डवाइस की बैटरी निकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- किसी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डवाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मिक रूप से शॉर्ट-सर्किट हो सकती है। इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षतिग्रस्त हो सकती है।

छोटे बच्चे

आपका डवाइस और इसके एक्सेसरीज़ खिलौने नहीं हैं। उनमें छोटे-छोटे पुर्जे हो सकते हैं। उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

चकित्सा उपकरण

वायरलेस फ़ोन जैसे रेडियो ट्रांसमिटर करने वाले डवाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षित चकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चकित्सक या उक्त उपकरण के निर्माता से सलाह-परामर्श लें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण

संभावित व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपित चकित्सा डवाइस (जैसे कि कार्डियक पेसमेकर, इंसुलिन पंप और न्यूरोस्टिम्युलेटर) निर्माता वायरलेस डवाइस और चकित्सा डवाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्तियों को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- वायरलेस डवाइस को हमेशा मेडिकल डवाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डवाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डवाइस को चकित्सा उपकरण के वपिरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डवाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपित चकित्सा उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डवाइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

सुनने की क्षमता



चेतावनी: जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाज़ें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें।

कुछ वायरलेस डवाइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं।

अपने डविाइस की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें

आपका डविाइस वायरस या अन्य हानिकारक सामग्री के संपर्क में आ सकता है. नमिन्लखिति सावधानियां रखें:

- संदेश खोलते समय सावधान रहें। उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या वे आपके डविाइस अथवा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- कनेक्टविटि अनुरोध स्वीकार करते समय, इंटरनेट ब्राउज़ करते समय या सामग्री डाउनलोड करते समय सावधान रहें। गैर-भरोसेमंद स्रोतों से ब्लूटूथ कनेक्शन स्वीकार न करें।
- केवल उन स्रोतों से सेवाएँ और सॉफ्टवेयर स्थापति करें और उनका उपयोग करें जनि पर आपको भरोसा हो और जो पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हों।
- अपने डविाइस और उससे जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक बार में केवल एक एंटीवायरस ऐप का उपयोग करें। ज्यादा एंटीवायरस का उपयोग करने पर डविाइस और/या कंप्यूटर का प्रदर्शन और संचालन प्रभावति हो सकता है।
- यदि आप पूर्वस्थापति बुकमार्क्स और तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों के लकि तक पहुंचते हैं, तो उचित सावधानी बरतें। HMD Global ऐसी साइटों का न तो अनुमोदन करता है और न ही उनकी ज़िम्मेदारी लेता है।

वाहन

रेडियो सग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली वदियुतीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है. अधिकि जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के नरिमाता से संपर्क करें. वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डविाइस इंस्टॉल कयिा जाना चाहिए. गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है. नयिमति रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डविाइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कनिही. डविाइस, उसके पुर्जे या एक्सेसरीज़ जसि खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या वस्फोटक मटेरयिल रखने या ढोने का काम न करें. एयरबैग वाली जगह पर अपना डविाइस या एक्सेसरीज़ न रखें.

संभावति रूप से वस्फोटक जगहें

गैसोलनि पंप जैसी संभावति रूप से वस्फोटक जगहों पर अपना डविाइस बंद करें. चगियारियों से वस्फोट या आगजनी हो सकती है, जसिसे चोट या मृत्यु हो सकती है. ईधन, रासायनकि पदार्थों के प्लांट या वस्फोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दएि गए नषिधों पर ध्यान दें. संभावति रूप से वस्फोटक जगहों पर हो सकता है कसिाफ संकेत न हों. सामान्य रूप से ये वो जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनकि पदार्थ के स्थानांतरण या फ़ैसलिटी पर और जहां हवा में रासायनकि पदार्थ या कण हों. तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे कप्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के नरिमाताओं से पूछताछ करें कउनके आस-पास यह डविाइस सुरक्षति तरीके से उपयोग कयिा जा सकता है कनिही.

प्रमाणन जानकारी

यह मोबाइल डविाइस रेडियो तरंगों के एक्पोज़र से जुड़े दशानरिदेशों का पालन करता है.

आपका मोबाइल डविाइस रेडियो ट्रांसमीटर और रसीवर है। इसे स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन ICNIRP के अंतरराष्ट्रीय दिशान्देशों में सुझाए गए रेडियो तरंगों के एक्सपोजर (रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़िल्ड) से जुड़ी सीमाएं पार न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दिशान्देशों में सुरक्षा के संबंध में आवश्यक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य उम्र और तबयित कैसी भी क्यों न हो, सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ये एक्सपोजर के दिशान्देश स्पेसफ़िक अब्ज़ॉर्प्शन रेट (SAR) पर आधारित होते हैं, जो कउस समय सरि या शरीर में जमा होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) पावर की मात्रा बताने का तरीका है, जब डविाइस ट्रांसमिट कर रहा होता है। मोबाइल डविाइस के लिए ICNIRP SAR की सीमा 10 ग्राम टिशू पर औसत 2.0 W/kg होता है।

डविाइस से जुड़े SAR के परीक्षण संचालन की मानक स्थितियों में किया जाता है, जब वह अपने सभी फ्रीक्वेंसी बैंड पर, प्रमाणित अधिकतम पावर स्तर पर ट्रांसमिट करता है।

यह डविाइस सरि के सामने उपयोग किए जाने पर या शरीर से कम से कम 5/8 इंच (1.5 सेंटीमीटर) की दूरी पर रखे जाने पर RF एक्सपोजर से जुड़े दिशान्देशों का पालन करता है। शरीर पर टांग कर इस्तेमाल करने के लिए कोई कैरी केस, बेल्ट क्लिप या कोई दूसरी तरह का डविाइस होल्डर उपयोग किए जाने पर, उसमें धातु नहीं होना चाहिए और शरीर से वह कम से कम ऊपर बताई गई दूरी पर होना चाहिए।

डेटा या संदेश भोजने के लिए बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार का कनेक्शन उपलब्ध न होने तक भेजने के काम में देरी हो सकती है। जब तक भेजने का काम पूरा न हो, तब तक अलग रखने की दूरी से जुड़े दिशान्देशों का पालन करें।

सामान्य उपयोग के दौरान SAR मान ऊपर बताए गए मानों से काफी हद तक नीचे होते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सिस्टम की कार्यक्षमता कायम रखने और नेटवर्क पर व्यवधान कम करने के लिए, आपके मोबाइल डविाइस की ऑपरेटिंग पावर कॉल के लिए पूरी पावर की जरूरत न होने पर अपने आप कम हो जाती है। पावर आउटपुट जितना कम होगा, SAR मान भी उतना ही कम होगा।

डविाइस के मॉडल के अनुसार अलग-अलग संस्करण और एक से अधिक मान हो सकते हैं। समय के साथ पुरजों और डिज़ाइन में बदलाव हो सकते हैं और कुछ बदलावों से SAR के मानों पर असर पड़ सकता है।

अधिक जानकारी के लिए www.sar-tick.com पर जाएं। इस बात पर ध्यान दें कि मोबाइल डविाइस तब भी ट्रांसमिट कर रहे हो सकते हैं जब आपका कोई वॉइस कॉल नहीं कर रहे हों।

वश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी इस बात का संकेत नहीं देती है कि मोबाइल डविाइस का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की विशेष सतर्कता अपनाने की आवश्यकता पड़े। अगर आप एक्सपोजर कम करना चाहते/चाहती हैं, तो वे सुझाव देते हैं कि आप अपना उपयोग सीमित करें या फरि डविाइस को अपने सरि या शरीर से दूर रखने के लिए हैड्स-फ्री कटि का उपयोग करें। RF एक्सपोजर के बारे में अधिक जानकारी, व्याख्या और चर्चा के लिए WHO की वेबसाइट पर www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1 जाएं।

कृपया डविाइस के अधिकतम SAR मान के लिए www.hmd.com/sar देखें।

डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डविाइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहित दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें। कॉपीराइट सुरक्षा आपको फोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधित करने या स्थानांतरित करने से रोक सकती है।

कॉपीराइट और अन्य नोटिस

कॉपीराइट और अन्य नोटिस

इस मार्गदर्शिका में वर्णित कुछ उत्पादों, सुविधाओं, अनुप्रयोगों और सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है और इसके लिए सक्रियण, साइन अप, नेटवर्क और/या इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक उपयुक्त सर्विस प्लान की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए, अपने डीलर या अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें। इस डेवाइस में ऐसी वस्तुएं, प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर समाहित हो सकते हैं, जो यूएस तथा अन्य देशों के नरियात कानून और वनियमों के अधीन हो सकते हैं। कानून के विरुद्ध वचिलन पर प्रतिबंधित है।

इस दस्तावेज़ की सामग्री "यथारूप" प्रदान की गई है। जब तक लागू कानून द्वारा आवश्यक न हो, इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी वॉरंटी, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, नहीं दी जाती, जिसमें वाणज्यिकता और किसी खास प्रयोजन के लिए उपयुक्तता से संबंधित नहित वॉरंटियां भी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। HMD Global इस दस्तावेज़ में संशोधन करने और बना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, किसी भी परिस्थिति में HMD Global या उसका कोई लाइसेंसकर्ता किसी भी कारण से होने वाले डेटा या आय की हानि या वशिष्ट, आकस्मिक, परिणामी या अप्रत्यक्ष हानियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

HMD Global की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से या इसकी संपूर्ण सामग्री के पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वितरण पर प्रतिबंधित है। HMD Global निरंतर विकास की नीति पर काम करता है। HMD Global बना किसी पूर्व सूचना के इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी उत्पाद में परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

HMD Global आपके डेवाइस के साथ प्रदान किए गए तृतीय-पक्ष ऐप्स की कार्यात्मकता, सामग्री या अंतिम-उपयोगकर्ता समर्थन का न तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, न कोई वॉरंटी प्रदान करता और न ही इनकी ज़िम्मेदारी लेता है। इस ऐप का उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि ऐप यथारूप प्रदान किया गया है।

मानचित्र, गेम्स, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने और छवियां व वीडियो अपलोड करने में डेटा की बड़ी मात्रा खर्च हो सकती है। आपका सेवा प्रदाता आपसे डेटा ट्रांसमिशन का शुल्क ले सकता है। वशिष्ट उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग हो सकती है। अतिरिक्त वितरण और भाषा विकल्पों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें।

कुछ सुविधाएं, कार्यात्मकता और उत्पाद वितरण नेटवर्क आधारित हो सकते हैं और उन पर अतिरिक्त नियम, शर्तें और शुल्क लागू हो सकते हैं।

प्रदान किए गए सभी वनिरिदेश, सुविधाएं और अन्य उत्पाद जानकारी बना किसी सूचना के परिवर्तन की जा सकती है।

<http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध HMD Global की गोपनीयता नीति आपके द्वारा किए जाने वाले इस डेवाइस के उपयोग पर लागू होती है।

HMD Global Oy फ़ोन और टैबलेट के Nokia ब्रांड का एकमात्र लाइसेंसधारक है। Nokia, Nokia Corporation का पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

Nokia G21 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

Android, Google और अन्य संबंधित चहिन और लोगो Google LLC के ट्रेडमार्क हैं.

ब्लूटूथ के शब्द चहिन और लोगो पर Bluetooth SIG, Inc. का स्वामित्व है और HMD Global द्वारा ऐसे चहिनों का किसी भी प्रकार का उपयोग लाइसेंस के अधीन किया जाता है.

अधिकतम ट्रांसमिटर पावर

- GSM 850, 900: 35 dBm
- GSM 1800, 1900: 32 dBm
- WCDMA 1, 5, 8: 25 dBm
- LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41: 25 dBm
- Bluetooth 2400-2483.5 MHz: 8.45 dBm
- WLAN 2400-2483.5 MHz: 19.17 dBm
- WLAN 5150-5250, 5470-5725 MHz: 19.84 dBm
- WLAN 5250-5350 MHz: 19.20 dBm
- WLAN 5725-5850 MHz: 13.96 dBm
- TA-1418: NFC: -15.78 dBuA/m@10m